



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19—जुलाई 25, 2003 (आषाढ़ 28, 1925)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19—JULY 25, 2003 (ASADHA 28, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 30 जून 2003

सं. ए-22012/1/2003-पी.एम.ए.--अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होने के परिणामस्वरूप, डॉ. एस. नारायण, आई.ए.एस. (तमिलनाडु : 1965) ने दिनांक 30 जून, 2003 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. ए-22017/1/2003-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और वर्तमान में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में उसी हैसियत से नियुक्त श्री के.सी. राजू को दिनांक 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में श्री राजू की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल तक तथा उनके विवेकाधीन होगी।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

सं. ए-22017/1/2003-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री जोगिन्दर नाथ, जिन्हें प्रधानमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में पुनर्नियोजित किया गया था, का त्यागपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से स्वीकृत करते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

सं. ए-22017/1/2003-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री एल.आर.आहूजा, जिन्हें प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में निजी सचिव के रूप में पुनर्नियोजित किया गया था, को दिनांक 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में प्रधानमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्टाफ में श्री आहुजा की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल तक तथा उनके विवेकाधीन होगी।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

सं. ए-22012/1/2003-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, डॉ. एस. नारायण, आई.ए.एस. (सेवा-निवृत्त) को दिनांक 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश होने तक भारत सरकार के सचिव के रैंक एवं वेतन में, अनुबंध आधार पर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

सं. ए-22012/1/2003-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री अजय बिसारिया, आई.एफ.एस. (1987) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 22.6.2003 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 22.6.2004 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. आर. एस./3(i)/2003/24-कार्मिक--श्री एस. रंगराजन, जिन्हें अधिसूचना सं. आर.एस./2(ii)/2002/50-कार्मिक, दिनांक 26 जुलाई, 2002 द्वारा प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर विधायी/अधिशाली/समिति/नयाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 जुलाई 2003

सं. 1 (11)/68-प्रशासन-I--संसदीय कार्य मंत्रालय में उप सचिव श्री जी. के. आहुजा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48क के अधीन दिनांक 2.7.2003 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एस. मल्होत्रा, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 30 जून 2003

सं. 8/1(1)/2002-(VI) I—श्री एस. प्रभाकरन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र 67) के सदस्य, वित्त सलाहकार व पदेन सचिव, भारत सरकार तथा सदस्य, अन्तरिक्ष आयोग व परमाणु ऊर्जा आयोग ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अपने पद का कार्यभार दिनांक 30.06.2003 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 12/1(3)/2003/I—संयुक्त सचिव, अन्तरिक्ष विभाग, श्री एम. एस. कृष्णन, सहायक, अन्तरिक्ष विभाग को अनुभाग अधिकारी के रूप में रु. 6500-200-10500 के वेतनमान पर अन्तरिक्ष विभाग में उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

बैंगलूर-560 094, दिनांक 2 जुलाई 2003

सं. 12/2(6)/2003/I—राष्ट्रपति, श्री एस.एस. मीनाक्षीसुन्दरम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 68) के सदस्य को वित्त सलाहकार तथा भारत सरकार के पदेन सचिव और साथ-साथ अन्तरिक्ष आयोग तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य के रूप में दिनांक जुलाई 2, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एम. के. विष्णु, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2003

सं. ए-11013/46/99-प्रशासन-3--राष्ट्रपति, योजना आयोग के सी एस एस काडर के श्री पी. शंकर, निजी सहायक की योजना आयोग के सदस्य (श्री एस.पी. गुप्ता) के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्ति को दिनांक 30.6.2003 (अपराह्न) से समाप्त करते हैं।

एस. ए. रहीम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2003

सं. एफ-6(1840)/2001-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, योजना आयोग में उप सलाहकार, डा. महावीर सिंह, आई.ए. एस. (हरियाणा : 89) को दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह्न) से उनके शेष कार्यकाल के लिए अर्थात् दिनांक 2.12.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनको वैयक्तिक तौर पर योजना आयोग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2003

गृह मंत्रालय

सं. एफ-6(1868)/2002-प्रशासन-1 :--जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री एस.पी. आर्य, आई.ए.एस. (यू.पी. : 68) ने दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में प्रधान सलाहकार का कार्यभार त्याग दिया है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ-6(1880)/2003-प्रशासन-1 :--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2003 के आदेश सं. 13/8/2003-ई ओ (एस एम. I) द्वारा सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुपालन में श्री मनो रंजन, आई.ए.एस. (यू.पी. : 69) ने दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह्न) से भारत सरकार के सचिव के स्तर और वेतनमान में योजना आयोग में सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ-6(1881)/2003-प्रशासन-1 :--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2003 के आदेश सं. 13/8/2003-ई ओ (एस एम. I) द्वारा सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुपालन में श्री ए.के. मिश्रा, आई.ए.एस. (उड़ीसा : 69) ने दिनांक 1.7.2003 (पूर्वाह्न) से भारत सरकार के सचिव के स्तर और वेतनमान में योजना आयोग में सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जुलाई 2003

सं. 12018/1/2003-आई.एस.एस.--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर के. सां.सं., सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्यरत भारतीय सांख्यिकीय सेवा के जे ए जी स्तर के अधिकारी श्री ए.के. जौहरी दिनांक 30.6.2003 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त हो गए।

भारती दत्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 जुलाई 2003

सं. के. 13032/3/2002-यू.एस. II--भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री राजेश टंडन को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, उत्तरांचल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2003

सं. 14031/1/2003-यू टी एस--अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त संवर्ग के 1966 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के.एस. बैदवान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 जून 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. के. कालरा, अवर सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2003

सं. 14031/1/2003-यू टी एस--अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त संवर्ग के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री पुख रज बम्ब अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 जून 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. के. कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2003

सं. 20/जी/2483-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री प्रत्युष सिन्हा, भा.प्र.से. (बिहार : 69) को गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

सं. 20/जी/2484-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री बी.बी. मिश्रा, भा.पु.से. (उड़ीसा : 67) को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

सं. 20/जी/2485-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्रीमती एन्दी अनुराग, आई.पी. ओ.एस.(88) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 2 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2003

सं. I-18012/4/2002-आई पी एस-I--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से स्थायी करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	कृति रंजन सेनगुप्ता	26.06.1985
2.	अब्दुल मन्नान खान	26.06.1985
3.	अवानी मोहन जोरदार	26.06.1985
4.	सुजीत कुमार मंडल	26.06.1985
5.	शंकर नाथ मुखोपाध्याय	26.06.1985
6.	नेताई मलिक	26.06.1985
7.	संधि मुखर्जी	26.06.1985
8.	नित्येश रंजन राय	25.09.1985
9.	जहारलाल दासगुप्ता	23.08.1986
10.	अनूप कुमार चटर्जी	23.08.1986
11.	शक्ति प्रसाद सरकार	27.09.1986
12.	तुषार कांति भट्टाचार्य	24.02.1987
12.	मुकुल सेनगुप्ता	24.02.1987
14.	मृदुल कुमार मुखोपाध्याय	24.02.1987
15.	देव कुमार बसु	15.12.1988
16.	मो. फकरूल हुदा	23.09.1989
17.	रविन्द्र नाथ सरकार	23.09.1989
18.	महमूद आलम	23.09.1989
19.	साधन चन्द्र मंडल	23.09.1989
20.	नन्द कुमार बिस्वास	23.09.1989
21.	देवेन्द्र सुकुल	23.09.1989
22.	रखालदास मुखोपाध्याय	23.09.1989
23.	बादल कृष्ण भट्टाचार्य	16.03.1993
24.	मो. रफीउज्जमान	16.03.1993
25.	देव कुमार गंगोपाध्याय	09.11.1993
26.	श्यामल कुमार चक्रवर्ती	09.11.1993
27.	ओम प्रकाश गुप्ता	31.12.1994
28.	अजय कुमार सरकार	14.02.1996
29.	दीपक कुमार चाकी	14.02.1996
30.	सैयद मो. इलियास आजम	14.02.1996
31.	मिहिर कुमार भट्टाचार्य	14.02.1996
32.	वासुदेव बाग	14.02.1996

1	2	3
33.	महारथी अधिकारी	20.12.1996
34.	डैनियल शेरिंग लेपचा	20.12.1996
35.	ज्योतिप्रसाद सिन्हा राय	08.02.1997
36.	पी.टी. शेरपा	03.10.1997
37.	ए.के. राय	03.10.1997
38.	विनय कुमार चक्रवर्ती	31.10.1997
39.	पंकज कुमार दत्ता	31.10.1997
40.	विलियम केरकेत्ता	31.12.1997
41.	अरुण कुमार शर्मा	03.03.1998
42.	राम कल्याण अधिकारी	12.06.1998
43.	प्रदीप कुमार चटोपाध्याय	22.10.1998
44.	प्रदीप कुमार सान्याल	09.03.1999
45.	अमरनाथ मलिक	11.12.1999
46.	वरुण कुमार मलिक	02.02.2000
47.	अशोक कुमार दत्ता	11.12.1999
48.	सुनील कुमार मलिक	12.10.2000
49.	बसब कुमार तालुकदार	12.10.2000
50.	अशोक कुमार पात्रा	12.10.2000
51.	नवरुण भट्टाचार्य	12.10.2000

एस.पी. वर्मा, अवर सचिव

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2003

सं. ए-19011/3/2003-अ.रा.प.--राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार सूद, भा. प्र. से. (हि.प्र. 71) को 28 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं वेतनमान में परामर्शी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी.बी. राजप्पन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2003

सं. 14013/29/99-अ.भा.से. (iii)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संवर्ग

के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री बी.के. गोहेन	1986	07.03.1992
2.	श्री एम.के. बरुआ	1986	23.09.1992
3.	श्री टी.आर. डे	1986	11.03.1993
4.	श्री सी.के. शर्मा	1986	10.08.1992
5.	श्री प्रादीप हजारिका	1987	10.08.1993
6.	श्री वीरेन दत्ता	1987	16.11.1993
7.	श्री एन.जी. बरुआ (सेवानिवृत्त)	1987	10.08.1993
8.	श्री ए. सेनगुप्ता	1988	27.03.1994
9.	श्री बी.बी. हज्जर	1988	09.03.1995

अकील अहमद, उप सचिव

सं. 14012/3/2003-अ.भा.से. (III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री एन. मंजूनाथ प्रसाद	1994	04.09.1996
2.	श्री सुरेन्द्र गुप्ता	1997	08.09.1999
3.	सुश्री नीलम मीना	1998	07.09.2000

अकील अहमद, उप सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 3 जुलाई 2003

सं. 13016/1/2001-प्रश. I--राष्ट्रपति, श्री राजेश सक्सेना, सिविलियन स्टाफ अफसर, वायुसेना मुख्यालय, कार्मिक निदेशालय सिविल/पीसी को 23 जून, 2003 की पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (परिभ्रामी प्रशिक्षण) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2002

सं. क्यू/पीए 1/01/2002--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री अबासार बेउरिया, भारत के राजदूत, अंत्यनारिवो (मेडागास्कर), भारतीय

विदेश सेवा ग्रेड III से 30 नवम्बर, 2001 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बाबू पॉल, कृते निदेशक (एफ एस पी एवं संवर्ग)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2003

सं. ए. 19011/5/2003-प्रशा. II--राष्ट्रपति, प्रोदीप्तो घोष, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयू : 69) को दिनांक 13 जून, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेश तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

आई.सी. काम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. एफ. 2/7/2000 सिक्का-1--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 24.10.2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री एस.आर. पटवर्धन, जांच निरीक्षक, भारत सरकार टकसाल, मुम्बई और श्री रणबीर मंडल, जांच निरीक्षक, भारत सरकार टकसाल, कोलकाता की उप मुख्य जांचकर्ता अधिकारी (तदर्थ) के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1.7.2003 से और छह माह के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति इन अधिकारियों को नियमित नियुक्ति अथवा वरीयता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

सं. एफ. 2/15/2001 सिक्का-1--इस विभाग की दिनांक 17.1.2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में उप मुख्य जांचकर्ता श्री एम.जे. रे की 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में मुख्य जांचकर्ता के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 1.7.2003 से और छः महीने अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से संबंधित अधिकारी को नियमित नियुक्ति या वरीयता संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2003

सं. ए. 19011/9/2003-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री बी.पी. मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयू : 69) को दिनांक 3 जुलाई 2003 के अपराह्न से आगामी आदेश तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

यह इस विभाग की दिनांक 03 जुलाई 2003 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

एस. सौन्दर राजन, अवर सचिव

मुद्रा एवं सिक्का

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2003

सं. एफ. 1/8/97-करेंसी-1 (एसपीपी)--श्री एस. माधव राव, वरिष्ठ कारखाना प्रबंधक, प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद की प्रतिनियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने और प्रतिभूति मुद्रणालय में महाप्रबंधक द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने पर एस. माधव राव, वरिष्ठ कारखाना प्रबंधक को एतद्वारा उनके मूल संवर्ग, भारत सरकार टकसाल में प्रत्यावर्तित किया जाता है और तत्काल प्रभाव से उनकी तैनाती भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में की जाती है।

आर. के. मागो, अवर सचिव (करेंसी -I)

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

सं. पीएफजी (680)/93-प्रशा.-I (भाग)--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी और एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग (एमआरटीपी) में सचिव के पद पर प्रतिष्ठित श्री के. सी. गंजवाल ने 30 नवम्बर 2002 के अपराह्न में उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2003

सं. ए-12023/7/96-प्रशा.-I--इस विभाग की सम संख्यक दिनांक 14 मई 2002 की अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति महोदय, एमआरटीपी आयोग में सहायक निदेशक (आर्थिक) के पद पर भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहायक श्री बी.जे. गहलोत की प्रतिनियुक्ति अवधि को 18.12.2002 से 17.6.2003 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो आगे बढ़ाते हैं।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2003

सं. पीएफजी (850)/2003-प्रशा.-I--आर्थिक कार्य विभाग के कार्यालय आदेश सं. 11016/4/2002-आईईएस दिनांक 16 जनवरी, 2003 के अनुसरण में और उनके शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से कार्यभार-मुक्त होने पर भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी श्री पाल जोसेफ ने 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से कंपनी कार्य विभाग में आर्थिक सलाहकार के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 22 अप्रैल 2003

सं. पीएफजी/764/98-प्रशा.-I--राष्ट्रपति महोदय भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री के. जी. राधाकृष्णन को 31 मार्च 2003 के अपराह्न से, अगले आदेशों तक, एमआरटीपी आयोग में श्री एन.के. कुमार के स्थान पर निदेशक (अनुसंधान) नियुक्त करते हैं।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2003

सं. पीएफजी (541)/96-प्रशा.-II--भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री के. श्रीरामलाईमुथु ने अपना स्थानांतरण होने पर 8.5.2003 के अपराह्न में कंपनी रजिस्ट्रार, चैनेई के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री के. श्रीरामलाईमुथु को 12.5.2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, कम्पनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद के कार्यालय में सहायक कंपनी रजिस्ट्रार के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2003

सं. 10/2003(ए-12022/3/2003-स्थापना)--राष्ट्रपति, श्री एस.के. जी. रहाटे, आई ए एस (जेएच : 90) को वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) के निजी सचिव के रूप में दिनांक 24 मई 2003 से शेष अवधि अर्थात् 8.2.2004 तक अथवा जब तक वे माननीय वस्त्र मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते हैं, तब तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप-सचिव स्तर में 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

शशि भूषण, निदेशक

सं. 11/2003(ए-12026/2/2003-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री सुशील कुमार, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 24 मई 2003 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुशील कुमार की नियुक्ति वस्त्र मंत्री के चाहने तक अथवा पद पर बने रहने तक, इनमें से जो पहले हो, तक होगी।

शशि भूषण, निदेशक

सं. 12/2003(ए-12026/2/2003-स्था.)--राष्ट्रपति, श्री एस. एम. अब्दुल फहीम, अवर सचिव, कृषि मंत्रालय को 10,000-325-15,200

रुपये के वेतनमान में दिनांक 24 मई 2003 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री फहीम की नियुक्ति वस्त्र मंत्री के चाहने तक अथवा पद पर बने रहने तक, इनमें से जो पहले हो, तक होगी।

शशि भूषण, निदेशक

दिनांक 26 जून 2003

सं. 14/2003(ए-19011/7/96-स्थापना)--राष्ट्रपति, श्री चंद्र भान, उप सचिव (सीएसएस) को वस्त्र मंत्रालय में 14,300-18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक के बतौर 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से, उनके उप सचिव/निदेशक के रूप में 7 वर्ष की संयुक्त कार्य अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 23.07.2003 तक अथवा क्रमावर्तन नीति के अंतर्गत उनके वस्त्र मंत्रालय से बाहर तैनाती होने तक, इसमें से जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं।

शशि भूषण, निदेशक

दिनांक 30 जून 2003

सं. 13/2003(ए-45013/3/2002-स्थापना)--श्री चरण दास, निदेशक, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, अधिवर्षिता प्राप्त होने पर, 30 जून 2003 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शशि भूषण, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2003

सं. ए-12011/7/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री आशीष कुमार को 24 मई, 2003 (अपराह्न) से 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में उनकी यह नियुक्ति श्रीमती सुमित्रा महाजन के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री का कार्यभार संभालने की अवधि अथवा मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहने तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए अस्थाई एवं सह-पर्यवसान आधार पर है।

एल. एस. नेगी, अवर सचिव

सं. ए-12011/7/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री रमा दत्त जो सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग के लेखा अधीक्षक हैं, को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के सहायक निजी सचिव के रूप में 24.05.2003 (अपराह्न) से 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य

मंत्री का कार्यभार संभालने की अवधि के लिए या मंत्री जी को जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक अस्थायी और सह-पर्यवसान आधार पर है।

एल.एस. नेगी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2003

सं. ए-11011/1/2003-स्था.--राष्ट्रपति, नेशनल को-आपरेटिव डिवेलेपमेंट कारपोरेशन (एन सी डी सी) के कर्नल अधिकारी श्री देबाशीष भौमिक को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 3.2.2003 के पूर्वाह्न से रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री भौमिक की नियुक्ति सह-समाप्य आधार पर, या जब तक रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री चाहें, जो भी पहले हो तक है।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2003

सं. ए-32011/2/2003-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित सहायक निदेशक (तकनीकी) (अब सहायक औद्योगिक सलाहकार नामित) श्री ए.के. अग्रवाल को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 1 अगस्त 1997 से और अगले आदेशों तक सभी अनुवर्ती लाभों सहित उप निदेशक (तकनीकी) (अब उप औद्योगिक सलाहकार नामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 10.1.2002 सी डब्ल्यू 3367/2000 के साथ पठित ओ.ए. नं. 1626/1996 और ओ.ए. नं. 1584/1999 में प्रधान पीठ, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2000 के फैसले के अनुपालन में है।

अनुराग सक्सेना, उपसचिव

सं. ए-32011/1/2003-स्था.--विभाग की अधिसूचना सं ए-32011/4/97-स्था, दिनांक 30 मार्च, 1998 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित सहायक निदेशक (तकनीकी) (अब सहायक औद्योगिक सलाहकार नामित) श्री पी.आर. बलसारा को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (तकनीकी) (अब उप औद्योगिक सलाहकार नामित) के पद पर 30 मार्च, 1998 के बदले 14 जून, 1997 से और अगले आदेशों तक सभी अनुवर्ती लाभों सहित पदोन्नति की तारीख को पूर्व दिनांकित करते हैं।

यह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 10.1.2002 सी डब्ल्यू 3367/2000 के साथ पठित ओ.ए. नं. 1626/1996 और ओ.ए. नं.

1584/1999 में प्रधान पीठ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 2000 के फैसले के अनुपालन में है।

अनुराग सक्सेना, उप सचिव

सं. ए-32011/2/2003-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित सहायक औद्योगिक सलाहकार, श्री एच.एस. कैंतुरा को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 1 अप्रैल, 2002 से अगले आदेशों तक सभी अनुवर्ती लाभों सहित उप औद्योगिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनुराग सक्सेना, उप-सचिव

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. 9(3)/2003-प्रशा.--भारतीय प्रशासनिक सेवा के (कर्नाटक:1968) श्री धीरेन्द्र सिंह ने भारत सरकार के विनिवेश मंत्रालय में 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस.के. बन्दोपाध्याय, उप-सचिव

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2001

सं. ए-12023/1/2002-प्रशा.--श्री बालासाहेब विखे पाटिल द्वारा दिनांक 24.5.2003 को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री का पद त्यागने के परिणामस्वरूप मंत्री (भा.उ. एवं लो. उ.) के विशेष कार्याधिकारी श्री अविनाश ढाकणे की सेवाएं राजस्व एवं वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार को 28.5.2003 (अपराह्न) से सौंपी जाती हैं।

उन्हें 25.5.2003 से 28.5.2003 तक अर्थात् चार दिन की समापन अवधि की मंजूरी दी जाती है।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2003

सं. ए-12023/1/2002-प्रशा.--श्री बालासाहेब विखे पाटिल द्वारा दिनांक 24.5.2003 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का पद त्यागने के बाद, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री वी.के. गोसावी, उप मंडलीय कृषि पदाधिकारी, नासिक महाराष्ट्र (महाराष्ट्र : कृषि सेवा संवर्ग) अर्थात् 24.5.2003 से 7.6.2003 (अपराह्न) तक, को 15 दिन की समापन अवधि स्वीकृत की जाती है।

2. समापन अवधि के समाप्त होने पर, श्री गोसावी की सेवाएं 7.6.2003 (अपराह्न) से महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाती हैं।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023/1/2002-प्रशा.--श्री बालासाहेब विखे पाटिल द्वारा दिनांक 24.5.2003 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का पद त्यागने के बाद, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के निजी सचिव श्री सतीश एम. गवई, (आई.ए.एस.एम.एच.: 84) को 30 दिन की समापन अवधि, अर्थात् 24.5.2003 से 22.6.2003 (अपराह्न) तक, स्वीकृत की जाती है।

2. समापन अवधि के समाप्त होने पर, श्री गवई की सेवाएं महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाती हैं।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023/1/2002-प्रशा.--श्री बालासाहेब विखे पाटिल द्वारा दिनांक 24.5.2003 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री का पद त्यागने के बाद, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के सहायक निजी सचिव, श्री बी. सुधाकर रेड्डी, एक नियमित अनुभाग अधिकारी, दूर संचार विभाग, को 15 दिन की समापन अवधि, अर्थात् 24.5.2003 से 7.6.2003 (अपराह्न) तक, स्वीकृत की जाती है।

2. समापन अवधि के समाप्त होने पर, श्री रेड्डी को 23 दिन के अर्जित अवकाश अर्थात् दिनांक 8.6.2003 से 30.6.2003 तक स्वीकृत किया जाता है, अवकाश की समाप्ति के बाद श्री रेड्डी की सेवाएं दूर संचार विभाग को सौंपी जाती हैं।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2003

सं. ए-19011/(6)/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग में श्री नवीन कुमार आई.ए.एस. (बिहार-75) को दिनांक 14.6.2003 से उनके सामान्य कार्यकाल अर्थात् 23.8.2004 तक के उनकी शेष अवधि तक या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, 18400-22400 के वेतनमान में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2003

सं. ए-19011/(8)/2001-प्रशा.--राष्ट्रपति इस विभाग के उपसचिव श्री आर.के. जैन, आई आई एस (91) को दिनांक 16.6.2003 (पूर्वाह्न) से माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। सामान्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल जो उप सचिव के स्तर पर 31.5.2005 तक है, श्री जैन को मंत्री के निजी सचिव के रूप में अवधि 31.5.2008 तक या मंत्री की निजी सचिव के रूप में कार्य त्यागने तक, जो भी पहले हो, होगी।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2003

सं. ए-12023/(2)/2001-प्रशा.--राष्ट्रपति श्री एस.एन. बागची को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री सुबोध मोहिते, के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में 24 मई 2003 से 10,000-15,000 रुपये के वेतनमान में अगला आदेश होने तक या मंत्री के पद छोड़ने, तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के.के. शर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2003

सं. ए-12011/3/95-प्रशा.--श्री बलदेव चन्द, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र) के अपने मूल संवर्ग में समय से पूर्व वापस चले जाने से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अक्टूबर, 2003 के पत्र सं. 27/13/2002-ईओ (एस एम. I) का अनुसरण करते हुए 3 फरवरी, 2003 के अपराह्न से वायदा बाजार आयोग, मुंबई के सदस्य का पदभार छोड़ दिया है।

एस.के. नायक, अवर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2003

सं. ए-43011/2/2001-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री पवन कुमार वर्मा, नियमित प्रधान निजी सचिव की 12000-16500 रु. के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 1 जुलाई, 2003 से छः महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. श्री पवन कुमार वर्मा को उक्त तदर्थ नियुक्ति से वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा स्थायीकरण आदि के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.6.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/27/98-सीएस. II (वाल्जूम. II) के अधीन प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस.के. नायक, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2003

सं. ए-19011/15/98-भा.व. सेवा I--श्री एम.के. जिवराजिका, भा. व. सेवा (एम एच:77), वन महानिरीक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर उनकी सेवाएं 16.06.2003 अपराह्न से उनके मूल संवर्ग को वापस सौंपी जाती है।

एम. एल. पराशर, अवर सचिव

दिनांक 18 जून 2003

सं. ए-19011/3/98-भा.व. सेवा I--राष्ट्रपति, श्री दिनेश कुमार शर्मा, भारतीय वन सेवा के गुजरात संवर्ग के 1985 बैच के अधिकारी की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में वन संरक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 26.7.2003 (पूर्वाह्न) से छः महीने के लिए बढ़ाते हैं।

एम.एल. पराशर, अवर सचिव

दिनांक 24 जून 2003

सं. ए-12026/7/2002-भा. व. सेवा I--राष्ट्रपति, श्री ए.के. गोयल, भारतीय वन सेवा (केरल : 1981) को 16400-450-20000 रुपये के वेतनमान में 19.6.2003 अपराह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पांच वर्ष की अवधि के लिए उप वन महानिरीक्षक नियुक्त करते हैं।

एम.एल. पराशर, अवर सचिव

सं. ए-19011/1/2003-भा. व. सेवा I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के एं.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के 1985 बैच के अधिकारी डॉ. बिपिन बिहारी को 30 मई 2003 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम.एल. पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 जून 2003

सं. ए-19011/3/2000-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.6.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/11/2003-ई.ओ. (एम. एम.-I) के अनुसरण में श्री टी.के. मनोज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 87) जो वर्तमान में अनिवार्य प्रतीक्षा में थे, को स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उनके कार्यभार से 23 जून 2003 के पूर्वाह्न से इस निर्देश के साथ कि वह लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी मसूरी में अपना नया कार्यभार ग्रहण कर लें, उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

डा. अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 जून 2003

सं. ए-32014/4/2003-स्थापना-I--सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा, 2001 के आधार पर परीक्षा कोटे के प्रति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2001 की चयन सूची में उनके नाम शामिल हो जाने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 5.5.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2003-सी.एस.-I के तहत इस मंत्रालय में नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, निम्नलिखित

सहायकों को उनके नामों के आगे लिखी गई तारीखों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

1. सुश्री ज्योति सिंगल--27.5.2000 (पूर्वाह)
2. श्री के. आर. राजन--13.6.2003 (पूर्वाह)

डा. अनिल कुमार, अवर सचिव

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2003

सं. ए-32012/1/2002-भा.चि.प. एवं हो. (स्था-1)--डा. संजय कुमार ने अपनी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप 13 अक्टूबर 2002 के पूर्वाह को चिकित्सा अधिकारी (आयु.) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है तथा 13 अक्टूबर 2002 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक रु. 10000-325-15200 के वेतनमान में + प्रैक्टिसबंदी भत्ता पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयु.) के पदभार का कार्य ग्रहण कर लिया है।

एन.के. लखनपाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2003

सं. 12022/1/2003-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री जे.पी. मीणा, भा.प्र.से. (असम-मेघालय : 83) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में उक्त पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से उनकी सामान्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिये अर्थात् 16.4.2005 तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, 18,400--22,400 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक (कार्मिक)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2003

सं. 12022/15/2000-स्था. I--वर्ष 2001 के लिये सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा विभागीय परीक्षा कोट के तहत वर्ष 2001 के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सहायक) संवर्ग के ग्रेड IV अधिकारी श्री रंधीप ठाकुर को 21 मई 2003 के पूर्वाह से तथा आगामी आदेशों तक के लिये उसी विभाग में अनुभाग अधिकारी (6500--10,500 रु.) (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के.डी. उप्रेती, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2003

सं. ए-12022/4/2003-स्था-1--राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम एच : 88) को पांच वर्ष के लिए या वे जब तक मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 9.6.2003 के पूर्वाह से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब एम. के. पाटिल) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बावेजा, अवर सचिव

सं. ए-12022/6/2003-स्था-1--राष्ट्रपति, श्री वाई.पी. सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम टी : 84) को उनके कार्यकाल के शेष पांच वर्षों अर्थात् दिनांक 5.11.2007 तक के लिए या वे जब तक मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 26.5.2003 से निदेशक के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनकी सेवा काल की गणना दिनांक 16.11.2002 से की जाएगी।

एच. सी. बावेजा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2003

सं. 4-8/2003-प्रशासन I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 21.5.2003 के आदेश सं. 4/14/2003-ई.ओ. (एस.एम.-1) के अनुपालनार्थ श्रीमती पारुल देबी दास, भा.प्र.से. (असम : 75) को 16 जून, 2003 के पूर्वाह से 15 जून 2008 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

विनीत जोशी, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. 19011/2/2002-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 13/8/2003-स्थापना का. (एस.एम. I) दिनांक 30 जून 2003 के अनुसरण में इस मंत्रालय में सचिव, श्री बी.एस. बासवान, भा.प्र. से. (छत्तीसगढ़ : 67) ने 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव का पद ग्रहण करने के लिए श्री एस.पी. आर्य, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 68) को कार्यभार सौंप दिया है।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2003

सं. 2 (3)/2003 का. I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्री हरजीत सिंह (कर्मचारी कोड संख्या 333), भण्डार अधिकारी (वैयक्तिक/तदर्थ) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 19.06.2003 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भण्डार अधिकारी नियुक्त किया है।

नरेश कुमार कपूर, उप निदेशक

सं. 2 (3)/2003 का. I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्री हंस राज (कर्मचारी कोड संख्या 332), भण्डार अधिकारी (वैयक्तिक/तदर्थ) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 23.06.2003 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भण्डार अधिकारी नियुक्त किया है।

नरेश कुमार कपूर, उप निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जून 2003

सं. 13-2/2002-एसपीजी--डाक विभाग में डाक सेवा समूह 'ख'/सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अपने नाम के सामने उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तारीख	सर्किल जहां से सेवानिवृत्त हुए
1	2	3	4	5
	सर्व/श्री			
1.	आर. एन. मांझी	26.02.1943	28.02.2003	बिहार
2.	एस. एल. रजोरिया	01.03.1943	28.02.2003	मध्य प्रदेश
3.	एच. डी. वैष्णव	07.03.1943	31.03.2003	राजस्थान
4.	आर. सोमासुन्दरम	05.02.1943	28.02.2003	तमिलनाडु
5.	एस. सैय्यद कासिम	14.02.1943	28.02.2003	तमिलनाडु
6.	एम. राजेश्वर राव	15.03.1943	31.03.2003	आंध्र प्रदेश
7.	सी. बी. परमार	13.03.1943	31.03.2003	गुजरात
8.	एस. आर. हंस	28.03.1943	31.03.2003	हिमाचल प्रदेश
9.	लक्ष्मीनरसइया	15.03.1943	31.03.2003	कर्नाटक
10.	डी. सी. शर्मा	21.03.1943	31.03.2003	उत्तरांचल
11.	जे. पी. आर्य	12.03.1943	31.03.2003	उत्तरांचल
12.	बी. एन. पाठक	01.05.1943	30.04.2003	बिहार
13.	के. एस. राजपूत	07.04.1943	30.04.2003	मध्य प्रदेश

दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 जून 2003

सं. 36-3/2003-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री डी.आर. मनचन्दा को 24 मई 2003 की अपराह्न से 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में श्री डी. आर. मनचन्दा की यह नियुक्ति, दिनांक 24.5.2003 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में उनके कार्य-समाप्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

एम. एल. मिगलानी, उप सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 19 जून 2003

सं. 1-2/2001-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री पी. के. चन्दा (आई टी एस) को 19 जून 2003 (पूर्वाह्न) से दूरसंचार आयोग का सदस्य (सेवाएं) नियुक्त करते हैं।

मन मोहन सिंह, अवर सचिव

1	2	3	4	5
14.	एच. एस. भाटिया	01.05.1943	30.04.2003	पंजाब
15.	के. वी. जगमोहन राव	06.05.1943	31.05.2003	आंध्र प्रदेश
16.	बी. के. नायडू	01.06.1943	31.05.2003	आंध्र प्रदेश
17.	एन. भट्टाचारजी	01.06.1943	31.05.2003	असम
18.	सत्यानंद सिंह	12.05.1943	31.05.2003	पीटीसी, दरभंगा
19.	एम. के. किन्हीकर	13.05.1943	31.05.2003	महाराष्ट्र
20.	एम. एस. स्टेनस्लस	21.05.1943	31.05.2003	तमिलनाडु
21.	जी. नरसिंहन	02.05.1943	31.05.2003	तमिलनाडु
22.	आइ. सवरीराज	07.05.1943	31.05.2003	तमिलनाडु
23.	डी. एन. वर्मा	01.06.1943	31.05.2003	उत्तर प्रदेश

आर. एस. यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जून 2003

सं. 1-37/2002-एसजीपी--राष्ट्रपति, 1968 बैच के भारतीय डाक सेवा समूह "क" के अधिकारी, मेजर जनरल एस. के. सेन, जो इस समय सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को एफ. आर. 22 की धारा-II के अनुसरण में सदस्य, डाक सेवा बोर्ड के ग्रेड में 24,050-650-26,000 रु. के वेतनमान में 24.06.2003 से अर्थात् वह तारीख जिस दिन उनके आसन कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई है, प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं।

वी. के. तिवारी, निदेशक (स्टफ)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2003

सं. ई आर बी-1/2003/2/33--श्री पी. सी. जोशी, भारतीय रेल यातायात सेवा जो इस समय 22,400-24,500/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत हैं, को 20.6.2003 के पूर्वाह्न से उसी पद पर 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2003/2/34--श्री युधिष्ठिर सिंह, भारतीय रेल यातायात सेवा, जो इस समय 22,400-24,500/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (वाणिज्य) रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत हैं, को 19.6.2003 के पूर्वाह्न से उसी पद पर 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 26 जून 2003

सं. ई आर बी-1/2002/3/5--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक श्री सुभाकर दत्ता (वेतनमान 5500-9000 रु.) को 17.6.2002 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी

(वेतनमान 6500-10500 रु.) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 01 जुलाई 2003

सं. ई आर बी-1/2003/2/50--श्री आर. के. सिंह, भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, म्हाप्रबंधक, उत्तर रेलवे को 30.6.2003 के अपराह्न से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 04 जुलाई 2003

सं. ई आर बी-1/2003/2/35--श्री एस. बी. घोष दस्तीदार, भारतीय रेल यातायात सेवा जो 22,400--24,500/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत हैं, को 18.6.2003 के अपराह्न से उसी पद पर 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 08 जुलाई 2003

सं. ई आर बी-1/2000/10/28--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.6.2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (i) श्री एस. एन. शर्मा | कमांडिंग अधिकारी/रे.सु.ब. |
| (ii) श्री एस. एल. दत्ता | अनुभाग अधिकारी |

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 09 जुलाई 2003

सं. ई.आर.बी.-1/2003/2/13--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक, श्री शिव नाथ झा (वेतनमान 5500-9000/- रु.) को 19.6.2003 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (वेतनमान 6500--10500/- रु.) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है।

आर. आर. जारूहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 07 जुलाई 2003

सं. ए-32014/1/96 स्था.-1--राष्ट्रपति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संवर्ग के सहायक श्री एस. के. खुराना को दिनांक 1 जुलाई 2003 से छः मास की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे श्री एस. के. खुराना की वरिष्ठता अथवा नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ए. पी. पांडी, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. 3/1/2001-प्रशा. I--राष्ट्रपति द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में निम्नलिखित वैज्ञानिक-एफ को सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 18400-500-22400/- रु. के वेतनमान में वैज्ञानिक-जी के रूप में स्व-स्थाने प्रोन्नति दी जाती है :-

1. डा. के. के. सिंह;
2. डा. बी. बंधोपाध्याय;
3. श्री के. पी. सुकुमारन, और
4. श्री सुधीर मोहन

2. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के समूह 'अ' राजपत्रित पदों (गैर-मंत्रालयी वैज्ञानिक एवं तकनीकी नियम, 1988) के नियमों के अनुसार उपर्युक्त चार वैज्ञानिकों की उक्त प्रोन्नति उनके लिए ही होगी।

जे. मजूमदार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 04 जुलाई 2003

सं. 17/2003, फाईल संख्या 25/1(3)/2002--स्थापना-1, संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने

श्री योगेश्वर सरन वार्नेय को दिनांक 21.5.2003 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु. 8,000-13,500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री योगेश्वर सरन वार्नेय कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं. 18/2003/ 25/1(14)/2002-स्थापना-एफ-- संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री जयन्त कुमार गुप्ता को दिनांक 19.5.2003 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु. 8,000-13,500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री जयन्त कुमार गुप्ता कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 26 मई 2003

सं. के-11011/13/2003-डीडीए--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री डी. बी. गुप्ता, आई.ए.एस. (राजस्थान: 83), जो वर्तमान में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक के स्तर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (आवास) के पद पर कार्यरत हैं, को श्री ए. रामास्वामी, आई.ए.एस. (कर्नाटक: 74) के स्थान पर इस मंत्रालय के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रधान आयुक्त के पद पर (संयुक्त सचिव स्तर पर) 18,400-22,400 रु. के वेतनमान में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि की शेष अवधि के लिए, अर्थात् 14.5.2005 तक या अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया है।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2003

फा. सं. ए. 19011/1/2003-प्रशा.-I--राष्ट्रपति जी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एम. सी. अरोड़ा को दिनांक 8 मई, 2003 की पूर्वाह्न से, अगले आदेश जारी होने तक, श्रम मंत्रालय में, उपसचिव (यथा-स्थाने) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. सी. मित्तल, उप सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 30th June 2003

No. A. 22012/1/2003-PMA.—Consequent upon his retirement on superannuation, Dr. S Narayan, IAS (TN:1965) has relinquished the charge of the post of Secretary to Prime Minister in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of June, 30, 2003.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

The 1st July 2003

No. A. 22017/1/2003-PMA.—The President is pleased to appoint Shri K.C. Raju, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Home Affairs and presently appointed in the same capacity on the personal staff of Prime Minister, as Private Secretary on the personal staff of Prime Minister in the scale of Rs. 6500-200-10500 on deputation basis with effect from the forenoon of July 1, 2003.

2. The appointment of Shri Raju on the personal staff of Prime Minister is coterminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

No. A. 22017/1/2003-PMA.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Joginder Nath, re-employed on the personal staff of Prime Minister as Assistant Private Secretary to PM, with effect from the forenoon of July 1, 2003.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

No. A. 22017/1/2003-PMA.—The President is pleased to appoint Shri L.R. Ahuja, presently re-employed as Private Secretary on the personal staff PM, as Assistant Private Secretary to PM in the scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from the forenoon of July 1, 2003.

2. The appointment of Shri Ahuja on the personal staff of Prime Minister is coterminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

No. A. 22012/1/2003-PMA.—The President is pleased to appoint Dr. S. Narayan, IAS (retired) as Economic Advisor to the Prime Minister, in the rank and pay of Secretary to the Government of India, on contract basis with effect from the forenoon of 1st July 2003 till further orders.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

No. A. 22012/1/2003-PMA.—The President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri Ajay Bisaria, IFS (1987), Private Secretary to the Prime Minister, for a period of one year beyond 22.6.2003 i.e. up to 22.6.2004, or until further orders, whichever is earlier.

ROHIT KHERA, Officer on Spl. Duty

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st July 2003

No. RS/3(i)/2003/24-Perl.—Shri S. Rangarajan, who was appointed to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer against a deputation vacancy vide Notification No. RS/2(ii)/2002/50-Perl. dated the 26th July, 2002 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 1st July, 2003, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the Orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 02nd July 2003

F.No. 1(11)/68-Admn.—Shri G.K. Ahuja, Deputy Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs voluntarily retired from government service w.e.f. the forenoon of 02.07.2003 under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

P.S. MALHOTRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 30th June 2003

No. 8/1(1)/2002-(VI) I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri S. Prabhakaran, a Member of Indian Administrative Service (MH: 67), Financial Adviser and Ex-Officio Secretary to the Government of India and concurrently Member, Space Commission and Atomic Energy Commission, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30.6.2003.

K.S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 12/1/3/2003/I.—The Joint Secretary, Department of Space, is pleased to appoint Shri M.S. Krishnan, Assistant, Department of Space, on promotion, as Section Officer in the Department of Space in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from the date of his taking over charge of the post and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Under Secy.

Bangalore-560 094, the 2nd July 2003

No. 12/2(6)/2003-I.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Meenakshisundaram, a Member of the Indian Administrative Service (KN:68), as Financial Adviser and Ex-Officio Secretary to the Government of India and concurrently Member, Space Commission and Atomic Energy Commission with effect from the forenoon of 2nd July, 2003 and until further orders.

M.K. VISHNU, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th June 2003

No. A-11013/46/99-Adm. III.—The President is pleased to terminate the appointment of Sh. P. Sankar, Personal Assistant, Planning Commission of CSSS cadre of Planning Commission as Ist P.A. in the personal staff of Member (Sh. S.P. Gupta), Planning Commission w.e.f. 30.06.2003 (AN).

S.A. RAHIM, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2003

No. F. 6(1840)/2001-Adm. I.—The President is pleased to appoint Dr. Mahavir Singh, IAS (HY:89), Deputy Secretary, Planning Commission as Director in the Planning Commission as a measure personal to him w.e.f. 1.7.2003 (FN) and for the balance period of his tenure i.e. upto 2.12.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 1st July 2003

No. F. 6(1868)/2002-Adm. I.—Consequent on his appointment as Secretary in the Ministry of Tribal Affairs, Shri S.P. Arya, IAS (UP:68) has relinquished charge of the Office of Principal Adviser, Planning Commission w.e.f. 1.7.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F. 6(1880)/2003-Adm. I.—In pursuance of the ACC's approval conveyed by the Department of Personnel and Training vide their Order No. 13/8/2003-EO (SM.1) dated 30th June, 2003, Shri Mano Ranjan, IAS (UP:69) has assumed charge as Adviser in the Planning Commission in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 1.7.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F. 6(1881)/2003-Adm. I.—In pursuance of the ACC's

approval conveyed by the Department of Personnel and Training vide their Order No. 13/8/2003-EO (SM.1) dated 30th June, 2003, Shri A.K. Mishra, IAS (OR:69) has assumed charge as Adviser in the Planning Commission in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 1.7.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 4th July 2003

No. 12018/1/2003-ISS.—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Johari, a JAG level officer of Indian Statistical Service, posted as Director in CSO, Ministry of Statistics & P.I. New Delhi, retired from service on 30.6.2003 (AN).

BHARATI DATTA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 2nd July 2003

No. K. 13032/3/2002-US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Tandon to be an Additional Judge of the Uttaranchal High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Joint Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 3rd July 2003

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri K.S. Baidwan, Indian Administrative Service Officer of 1966 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2003.

K.K. KALRA, Under Secy.

The 7th July 2003

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri Pukh Raj Bumb, an Indian Administrative Service Officer of 1984 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2003.

K.K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the 8th July 2003

No. 20/G/2483-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Pratyush Sinha, IAS (BH : 69), as Secretary (Border Management) in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 1st July, 2003, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2484-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri B.B. Mishra, IPS (OR : 67), as Special Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 1st July, 2003, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2485-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Aindri Anurag, IPoS (88), as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 2nd July, 2003, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 8th July 2003

No. I-18012/4/2002-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of West Bengal with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of confirmation in the IPS
1	2	3
	(S/Shri)	
1	Kirti Ranjan Sengupta	26.06.1985
2	Abdul Mannan Khan	26.06.1985
3	Abani Mohan Joardar	26.06.1985
4	Sujit Kumar Mandal	26.06.1985
5	Sankar Nath Mukhopadhyay	26.06.1985
6	Netai Mallick	26.06.1985
7	Sandhi Mukherjee	26.06.1985
8	Nityes Ranjan Roy	25.09.1985
9	Jaharlal Dasgupta	23.08.1986
10	Anup Kumar Chatterjee	23.08.1986
11	Sakti Prasad Sarkar	27.09.1986
12	Tushar Kanti Bhattacharyya	24.02.1987
13	Mukul Sengupta	24.02.1987
14	Mridul Kumar Mukhopadhyay	24.02.1987
15	Deb Kumar Basu	15.12.1988
16	Md. Fakrul Huda	23.09.1989

17	Rabindra Nath Sarkar	23.09.1989
18	Mahmood Alam	23.09.1989
19	Sadhan Chandra Mondal	23.09.1989
20	Nanda Kumar Biswas	23.09.1989
21	Debendra Sukul	23.09.1989
22	Rakhaldas Mukhopadhyay	23.09.1989
23	Badal Krishna Bhattacharyya	16.03.1993
24	Md. Rafiuzzaman	16.03.1993
25	Deb Kumar Gangopadhyay	09.11.1993
26	Shyamal Kumar Chakrobarty	09.11.1993
27	Om Prakash Gupta	31.12.1994
28	Ajoy Kumar Sarkar	14.02.1996
29	Dipak Kumar Chaki	14.02.1996
30	Syed Md. Iliyas Azam	14.02.1996
31	Mihir Kumar Bhattacharyya	14.02.1996
32	Basudev Bag	14.02.1996
33	Maharathi Adhikari	20.12.1996
34	Daniel Tshering Lepcha	20.12.1996
35	Jyotiprasad Sinha Roy	08.02.1997
36	P.T. Sherpa	03.10.1997
37	A.K. Roy	03.10.1997
38	Benoy Kumar Chakraborty	31.10.1997
39	Pankaj Kumar Dutta	31.10.1997
40	William Kerketta	31.12.1997
41	Arun Kumar Sharma	03.03.1998
42	Ram Kalyan Adhikary	12.06.1998
43	Pradip Kumar Chattopadhyay	22.10.1998
44	Pradip Kumar Sanyal	09.03.1999
45	Amar Nath Mallick	11.12.1999
46	Barun Kumar Mallick	02.02.2000
47	Ashok Kumar Dutta	11.12.1999
48	Sunil Kumar Mallick	12.10.2000
49	Basab Kumar Talukdar	12.10.2000
50	Asoke Kumar Patra	12.10.2000
51	Nabarun Bhattacharyya	12.10.2000

S.P. VERMA, Under Secy.

INTER STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 29th May 2003

No. A.19011/3/2003-ISC.—The President is pleased to appoint Shri Surendar Kumar Sood, IAS (HP : 71), as Adviser, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 28th May, 2003 and until further orders.

P.B. RAJAPPAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 2nd July 2003

No. 14013/29/99-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Joint Cadre of Assam–Meghalaya with effect from the dates shown against them :—

S. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. B.K. Gohain	1986	7.3.1992
2.	Sh. M.K. Barooah	1986	23.9.1992
3.	Sh. T.R. Dey	1986	11.3.1993
4.	Sh. C.K. Sharma	1986	10.8.1993
5.	Sh. Pradip Hazarika	1987	10.8.1993
6.	Sh. Biren Dutta	1987	16.11.1992
7.	Sh. N.G. Barooah (Retd)	1987	10.8.1993
8.	Sh. A. Sengupta	1988	27.3.1994
9.	Sh. B.B. Hagjer	1988	9.3.1995

AQEEL AHMED, Dy. Secy.

No. 14012/3/2003-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal with effect from the dates shown against them :—

S. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. N. Manjunatha Prasad	1994	4.9.1996
2.	Sh. Surendra Gupta	1997	8.9.1999
3.	Smt. Neelam Meena	1998	7.9.2000

AQEEL AHMED, Dy. Secy.

New Delhi-110067, the 3rd July 2002

No. 13016/1/2001-Trg.I.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Saxena, CSO of the Air Headquarters, Directorate of Personnel Civ./PC as Deputy Director (Peripatetic Training) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from the forenoon of 23rd June, 2003 or until further orders whichever is earlier.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st January 2002

No. Q/PA I/01/2002.—On attaining the age of superannuation, Shri Abasar Beuria, Ambassador of India, Antananarivo (Madagascar), retired from Grade III of the Indian Foreign Service on the afternoon of November 30, 2001.

RUCHIRA KAMBOJ, Dir. (FSP & Cadre)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 13th June 2003

No. A.19011/5/2003-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Prodipto Ghosh, IAS (AGMU : 69) as Additional Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the afternoon of June 13, 2003 and until further orders.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 1st July 2003

F.No. 2/7/2000-COIN.I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 24.10.2002, the President is pleased to extend the appointment of Sh. S.R. Patwardhan, Assay Superintendent, India Government Mint, Mumbai and Shri Ranabir Mondal, Assay Superintendent, India Government Mint, Kolkata as Deputy Chief Assayer (Ad-hoc) for another six months w.e.f. 1.7.2003 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

F.No. 2/15/2001-COIN.I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 17.1.2003, the President is pleased to extend the appointment of Sh. M.J. Ray, Deputy Chief Assayer, India Government Mint, Hyderabad as Chief Assayer on adhoc basis in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 for a further six months w.e.f. 1.7.2003 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer on the officer any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 4th July 2003

No. A.19011/9/2003-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri B.P. Mishra, IAS (AGMU : 69) as Additional Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the afternoon of July 03, 2003 and until further orders.

This supercedes this Department's earlier notification of even number dated 3rd July 2003.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

CURRENCY & COINAGE

New Delhi, the 5th June 2003

No. 1/8/97-Cy.I(SPP).—Upon the completion of the extended period of the deputation period of Shri S. Madhav Rao, Sr. Works Manager, Security Printing Press, Hyderabad and upon the joining of General Manager in SPP, Hyderabad, Shri S. madhav Rao, SWM is hereby repatriated to his parent cadre, India Government Mint and posted at IGM, Hyderabad, with immediate effect.

R.K. MAGGO, Under Secy. (CY. I)

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th December 2002

No. PFG (680)/93-Ad. I (Pt.).—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri KC Ganjwal, an officer of Central Secretariat Service (CSS) and holding the post of Secretary in the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Commission has relinquished the charge the said post in the afternoon of Nov 30, 2002.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 8th January, 2003

No. A-12023/7/96-Admn.I.—In continuation to this Department's Notification of even number dated May 14, 2002, the President is pleased to extend the deputation period of Shri H.J. Gahlot, Technical Assistant in the Indian Agricultural Statistics Research Institute, to the post of Assistant Director (Economics) in the MRTP Commission with effect from 18.12.2002 to 17.06.2003 or until further orders, whichever is earlier.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 7th February 2003

No. PFG/850/2003-Ad.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs Office Order No. 11016/4/2002-IES dated 16th January, 2003, and on his release from Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation w.e.f. the afternoon of 31st January 2003, Shri Paul Joseph, an Officer of the Indian Economic Service (IES) has assumed the charge of the post of Economic Adviser in the Department of Company Affairs w.e.f. the afternoon of 31st January, 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 22nd April 2003

No. PFG/764/98-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri KG Radhakrishnan, an officer of Indian Economic Service, as Director (Research) in the MRTP Commission with effect from the afternoon of March 31, 2003 and until further orders, vice Shri N.K. Kumar.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 2nd July 2003

No. PFG(541)/96-AD.II.—On his transfer, Shri K. Thirumalaimuthu, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished charge of the post of Assistant Registrar of Companies in the O/o RoC, Chennai in the afternoon of 08.05.2003.

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri K. Thirumalaimuthu, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Hyderabad with effect from the forenoon of 12.05.2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 23rd June 2003

No. 10/2003(A-12022/3/2003-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri S.K.G. Rahate, IAS (JH : 90) as Private Secretary to the Minister of Textiles (Shri Syed Shah Nawaz Hussain) at the level of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 24th May, 2003 for the balance period of extended tenure i.e. up to 08.02.2004 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister of Textiles or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SHASHI BHUSHAN, Director

No. 11/2003 (A-12026/2/2003-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar, Under Secretary, Ministry of Labour, as Additional Private Secretary to Minister of Textiles (Shri Syed Shah Nawaz Hussain) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, with effect from the forenoon of 24th May, 2003.

2. The appointment of Shri Sushil Kumar will be on co-terminus basis or upto the period as desired by the Minister of Textiles, whichever is earlier.

SHASHI BHUSHAN, Director

No. 12/2003 (A-12026/2/2003-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri S.M. Abdul Faheem, Under

Secretary, Ministry of Agriculture, as Additional Private Secretary to Minister of Textiles (Shri Syed Shah Nawaz Hussain) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, with effect from the forenoon of 24th May, 2003.

2. The appointment of Shri Faheem will be on co-terminus basis or upto the period as desired by the Minister of Textiles, whichever is earlier.

SHASHI BHUSHAN, Director

The 26th June 2003

No. 14/2003(A-19011/7/96-Estt.).—The President is pleased to appoint Shri Chander Bhan, Deputy Secretary (CSS) as Director in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300 with effect from the forenoon of 1st July, 2003 for the balance period of his combined tenure of 7 years as Deputy Secretary/Director i.e. upto 23.07.2003 or till he is posted out of the Ministry of Textiles under Rotation Policy, whichever is later.

SHASHI BHUSHAN, Director

The 30th June 2003

No. 13/2003 (A-45013/3/2002-Estt.).—Shri Charan Dass, Director to the Government of India, Ministry of Textiles, has retired from Government Service on attainment of the age of superannuation with effect from the afternoon on 30th June, 2003.

SHASHI BHUSHAN, Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, The 25th June 2003

No.A-12011/7/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kumar as 1st PA to Minister of State for Petroleum & Natural Gas (Smt. Sumitra Mahajan) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 24.05.2003 (A.N.). His appointment as 1st PA is on temporary and co-terminus basis for the period of Smt. Sumitra Mahajan holds the office of the Minister of State for Petroleum & Natural Gas or till his services are required by the Minister, whichever is earlier.

L.S. NEGI, Under Secy.

No.A-12011/7/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rama Datt, Superintendent Accounts borne on the cadre of Directorate of Estates, Ministry of Urban Development as Assistant private Secretary to the Minister of State for Petroleum & Natural Gas (Smt. Sumitra Mahajan) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 24.05.2003 (AN). His appointment is on temporary and co-terminus basis for the period Smt. Sumitra Mahajan holds the office of the Minister of State for Petroleum & Natural

Gas or till his Services are required by the Minister, whichever is earlier.

L.S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 20th June 2003

No. A-11011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Debashis Bhowmick, Programme Officer of National Co-operative Development Corporation (NCDC), to the post of Asstt. P.S. to Minister of State for Chemicals and Fertilizers in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 3.2.2003.

2. The appointment of Shri Bhowmick is on co-terminus basis or for so long as desired by the Minister, whichever event takes place earlier.

R.P. VASISHTHA, Under Secy.

New Delhi, the 24th June 2003

No.A-32011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Agarwal a regular Assistant Director (Technical) (now designated as Assistant Industrial Adviser) of this Department to the post of Deputy Director (Technical) (now designated as Deputy Industrial Adviser) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 1st August, 1997 and until further orders, with all consequential benefits.

2. This is in compliance of the judgment of Principal Bench, Central Administrative Tribunal, New Delhi dated 21st February, 2000 in OA No. 1626/1996 and OA No. 1584/1999 read with Delhi High Court judgment dated 10.1.2002 in CW 3367/2000.

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

No.A-32011/1/2003-Estt.—In supersession of this Department Notification No. A-32011/4/97-Estt., dated 30th March, 1998, the President is pleased to antedate the date of promotion of Shri P.R. Bulsara a regular Assistant Director (Technical) (now designated as Assistant Industrial Adviser) of this Department to the post of Deputy Director (Technical) (now designated as Deputy Industrial Adviser) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 14th June, 1997 instead of 30th March, 1998 and until further orders, with all consequential benefits.

2. This is in compliance of the judgment of Principal Bench, Central Administrative Tribunal, New Delhi dated 21st February, 2000 in OA No. 1626/1996 and OA No.

1584/1999 read with Delhi High Court judgment dated 10.1.2002 in CW 3367/2000.

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

No. A-32011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri H.S. Kainiura a regular Assistant Industrial Adviser of this Department to the post of Deputy Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 1st April, 2002 and until further orders, with all consequential benefits.

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003 the 1st July 2003

No.9(3)/2003-Admn.—Shri Dharendra Singh, Indian Administrative Service (Karnataka: 1968), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Disinvestment on the 1st July, 2003 (forenoon).

S.K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 26th May 2003

No.A-12023/1/2002-Admn.—Consequent upon demitting the Office of Minister of Heavy Industries and Public Enterprises by Shri Balasaheb Vikhe Patil on 24.5.2003, the services of Shri Avinash Dhakane, Officer on Special Duty to Minister (HI&PE) are placed at the disposal of Department of Revenue and Forest, Government of Maharashtra w.e.f. 28.5.2003 (afternoon).

He is granted winding up period of 4 (Four) days i.e. from 25.5.2003 to 28.5.2003.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 4th June 2003

No.A-12023/1/2002-Admn.—Consequent upon demitting the Office of Minister of Heavy Industries and Public Enterprises by Shri Balasaheb Vikhe Patil on 24.5.2003, Shri V.K. Gosavi, Sub Divisional Agriculture Officer, Nashik, Maharashtra (Maharashtra Agriculture Service Cadre), Addl. Private Secretary to the Hon'ble Minister has been allowed winding up period of 15 (Fifteen) days i.e. from 24.5.2003 to 7.6.2003 (afternoon).

2. On expiry of winding up period, the services of the Shri Gosavi are placed at the disposal of Government of Maharashtra w.e.f. 7.6.2003 (Afternoon).

K. K. SHARMA, Under Secy.

No.A-12023/1/2002-Admn.—Consequent upon demitting the Office of Minister of Heavy Industries and Public Enterprises by Shri Balasaheb Vikhe Patil on 24.5.2003, the

services of Shri Satish M. Gavai, (IAS, MH:84), Private Secretary to the Hon'ble Minister (HI&PE) has been allowed winding up period of 30 (Thirty) days i.e. from 24.5.2003 to 22.6.2003 (afternoon).

2. On expiry of winding up period, the services of Shri Gavai are placed at the disposal of Government of Maharashtra after expiry of the winding up period.

K. K. SHARMA, Under Secy.

No.A-12023/1/2002-Admn.—Consequent upon demitting the Office of Minister of Heavy Industries and Public Enterprises by Shri Balasaheb Vikhe Patil on 24.5.2003, Shri V. Sudhakar Reddy, a regular Section Officer, Department of Telecommunications, Assistant private Secretary to the Hon'ble Minister (HI&PE) has been allowed winding up period of 15 (Fifteen) days i.e. from 24.5.2003 to 7.6.2003 (afternoon).

2. On expiry of winding up period, Shri Reddy has been granted Earned Leave from 23 days i.e. from 8.6.2003 to 30.6.2003. The services of Shri Reddy are placed at the disposal of Department of Telecommunications after expiry of leave.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 16th June 2003

No.A-19011/6/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Navin Kumar, IAS (BH:75) as Joint Secretary in the Department of Heavy Industry in the pay scale Rs. 18400-22400 w.e.f. 14.6.2003 for the balance period of his normal tenure i.e. upto 23.8.2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 17th June 2003

No. A-19011(8)/2001-Admn.—The president is pleased to appoint Shri R.K. Jain, IIS (91) Deputy Secretary of this Department as Private Secretary to the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, (Shri Subodh Mohite) w.e.f. the forenoon of 16.6.2003. Notwithstanding the normal central deputation tenure, which is upto 31.5.2005 at the level of Deputy Secretary, the period of Shri Jain as Private Secretary to Minister would be upto 31.5.2008 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event is the earliest.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 19th June 2003

No.A-12023(2)/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.N. Bagchi as Additional Private Secretary to the Minister of heavy Industries and Public Enterprises, Shri Subodh Mohite in the pay scale of Rs. 10,000-

15,200/- w.e.f. 24th May, 2003 until further order or till the Minister demits office, whichever is earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 26th June 2003

No.A-12011/3/95-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training letter No.27/13/2002-EO(SM.I) dated 11th October 2002 on premature repatriation to his parent cadre, Shri Baldev Chand, IAS (MH:74) relinquished charge of the post of Member, Forward Markets Commission, Mumbai with effect from the afternoon of 3rd February, 2003.

S.K. NAYAK, Under Secy.

The 8th July, 2003

F. No. A-43011/2/2001-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Pawan Kumar Verma, a regular Principal Private Secretary as Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad-hoc basis for a further period of six months with effect from 1st July, 2003, or till a regular candidate becomes available, or until further orders, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment does not entitle Shri Pawan Kumar Verma to any claim for regular appointment, seniority or confirmation etc. in the grade of Senior Principal Private Secretary.

3. This issues with the approval of the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 20/27/98-CS-II (Vol. II) dated 30.6.2003.

S.K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110 003, the 16th June, 2003

No. A-19011/15/98-IFS.I—On completion of his tenure of deputation with the Central Government, the services of Shri M.K. Jiwrajika, IFS (MH:77), Inspector General of Forests in Ministry of Environment & Forests are placed back to his parent cadre with effect from the afternoon of 16.6.2003.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

The 18th June, 2003

No. A-19011/3/98-IFS.I—The President is pleased to extend the tenure of deputation of Shri Dinesh Kumar Sharma, an Officer belonging to the 1985 batch of Gujarat Cadre of the Indian Forest Service to the post of Conservator of Forests in the Regional Office of Ministry of Environment & Forests for a period of six months beyond 26.7.2003 (FN).

M.L. PARASHAR, Under Secy.

The 24th June, 2003

No. 12026/7/2002-IFS.I—The President is pleased to appoint Shri A.K. Goyal, IFS (KL: 1981) as Deputy Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000 w.e.f. the forenoon of 19.6.2003 for a period of five years.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

No. A-19011/1/2003-IFS.I—The President is pleased to appoint Dr. Bipin Behari, an officer belonging to the 1985 batch of AGMUT Cadre of the Indian Forest Service to the post of Deputy Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 30th May, 2003.

M.L. PARASHAR, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)**

New Delhi, the 23rd June, 2003

No. A-19011/3/2000-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/11/2003-EO (MM-I) dated 13.6.2003, Shri T.K. Manoj Kumar, IAS (KL:87), presently on compulsory wait, is relieved of his duties in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare with effect from the forenoon of 23rd June, 2003 with the instructions to take up his new assignment in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussourie.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

The 26th June, 2003

No. A-32014/4/2003-Estt. I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service for the year 2001 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001 and nomination to this Ministry by Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 5/7/2003-CS.I dated 5.5.2003, the President is pleased to appoint the following Assistants in the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the dates mentioned against each :—

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ms. Jyoti Singhal | 27.5.2003 (FN) |
| 2. Shri K.R. Rajan | 13.6.2003 (FN) |

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ISM & H)

New Delhi, the 17th June, 2003

No. A-32012/1/2002-ISM(E-I)—Consequent upon, his promotion, Dr. Sanjay Kumar relinquished the charge of the post of Medical Officer (Ay.), on the forenoon of 13th October, 2002 and assumed the charge of the post of Senior Medical Officer (Ay.) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200+NPA

in the C.G.H.S. Meerut on the forenoon of the 13th October, 2002 until further order.

N.K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 20th May, 2003

No. 12022/1/2003-E. 1 (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri J.P. Meena, IAS (AM:83) as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the pay scale of Rs. 18400-22400 with effect from the date of his taking over the charge of the post for the balance period of his normal Central deputation tenure i.e. up to 16.4.2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

SARASWATI PRASAD, Dir. (Pers.)

New Delhi, the 9th June, 2003

No. 12022/15/2000-E.I.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Examination for the year 2001 and inclusion of his name in the Select List of Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service for the year 2001, against the Departmental Examination Quota, the President is pleased to appoint Shri Randheep Thakur, Grade IV officer of CSS (Assistant) Cadre of the Department of Agriculture and Cooperation, as Section Officer (Rs. 6,500-10,500) (Group 'B' Gazetted) in the same Department with effect from the forenoon of 21st May, 2003 and until further orders.

K.D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110 001, the 17th June, 2002

No. A-12022/4/2003-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, IAS (MH:88) as Private Secretary to Minister of State for Rural Development (Shri Annasaheb M.K. Patil) with effect from the forenoon of 9.6.2003 for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

No. A-12022/6/2003-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Y.P. Singh, IAS (MT: 84) Private Secretary to Minister of Rural Development (Shri Kashiram Rana) at the level of Director with effect from 26.5.2003 for the balance period of his tenure of five years i.e. upto 5.11.2007 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. He counts his tenure at the Centre w.e.f. 6.11.2002.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD WELFARE)

New Delhi, the 16th June 2003

No. 4-8/2003-Admn.—In pursuance of DOPT's order No. 4/14/2003-EO (SM. I) dated 21st May 2003, the President is pleased to appoint Smt. Parul Debi Das, IAS (AM:75), as Joint Secretary in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- in the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of June 16, 2003 and up to June 15, 2008 or until further orders whichever event takes place earlier.

VINEET JOSHI, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st July 2003

No. 19011/2/2002-Estt.—In pursuance of DOPT order No. 13/8/2003-EO (SM.I) dated 30th June, 2003, Sh. B.S. Baswan, IAS (CG: 67), Secretary in this Ministry has handed over the charge to Sh. S.P. Arya, IAS (UP: 68), for joining the post of Secretary in the Ministry of Social Justice & Empowerment on the forenoon of 1st July, 2003.

S.K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th June 2003

No. 2(3)/2003-Pers. I—Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Harjeet Singh (E. Code No. 333) Stores Officer (personal/ad-hoc) as Stores Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Information Technology with effect from 19.6.2003 (F.N.).

N.K. KAPOOR, Dy. Dir.

No. 2(3)/2003-Pers. I—Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Hans Raj (E. Code. No. 332) Stores Officer (personal/ad-hoc) as Stores Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Information Technology with effect from 23.06.2003 (F.N.)

N.K. KAPOOR, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 2nd June 2003

No. 36-3/2003-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri D.R. Manchanda as Additional Private Secretary to Minister of State for Communications and Information Technology (Shri Ashok Pradhan) in the Pay Scale of Rs. 10,000-15,200/- from the afternoon of 24th May, 2003.

2. The appointment of Shri D.R. Manchanda as Additional P.S. to the Minister of State for Communications and

Information Technology (Shri Ashok Pradhan) is for a tenure of three years from 24.05.2003 or until he ceases to work as Additional P.S. to the Minister of State for Communications and Information Technology (Shri Ashok Pradhan) or until further order, whichever happens earliest.

M.L. MIGLANI, Deputy Secy. (Admn.)

New Delhi-110001, the 19th June 2003

No. 1-2/2001-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri P.K. Chanda, (ITS) as Member (Services), Telecom Commission with effect from the forenoon of 19th June, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the 26th June 2003

No. 13-2/2002-SPG—The following officers of Postal Service Group 'B'/General Service Group 'B' in the Department of Posts have been retired from the Government Service with effect from the date mentioned against each consequent on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Retirement	Circle from where retired
S/Shri				
1.	R.N. Manjhi	26.02.1943	28.02.2003	Bihar
2.	S.L. Rajoria	01.03.1943	28.02.2003	Madhya Pradesh
3.	H.D. Vaishnav	07.03.1943	31.03.2003	Rajasthan
4.	R. Somasundaram	05.02.1943	28.02.2003	Tamil Nadu
5.	S. Syed Kasim	14.02.1943	28.02.2003	Tamil Nadu
6.	M. Rajeswara Rao	15.03.1943	31.03.2003	Andhra Pradesh
7.	C.B. Parmar	13.03.1943	31.03.2003	Gujarat
8.	S.R. Hans	28.03.1943	31.03.2003	Himachal Pradesh
9.	Lakshminarsaiah	15.03.1943	31.03.2003	Karnataka
10.	D.C. Sharma	21.03.1943	31.03.2003	Uttaranchal
11.	J.P. Arya	12.03.1943	31.03.2003	Uttaranchal
12.	B.N. Pathak	01.05.1943	30.04.2003	Bihar
13.	K.S. Rajput	07.04.1943	30.04.2003	Madhya Pradesh
14.	H.S. Bhatia	01.05.1943	30.04.2003	Punjab
15.	K.V. Jaganmohan Rao	06.05.1943	31.05.2003	Andhra Pradesh
16.	B.K. Naidu	01.06.1943	31.05.2003	Andhra Pradesh
17.	N. Bhattacharjee	01.06.1943	31.05.2003	Assam
18.	Satyanand Singh	12.05.1943	31.05.2003	PTC, Dharbanga
19.	M.K. Kinthikar	13.05.1943	31.05.2003	Maharashtra
20.	M.S. Stainslas	21.05.1943	31.05.2003	Tamil Nadu
21.	G. Narasimhan	02.05.1943	31.05.2003	Tamil Nadu
22.	I. Savariraj	07.05.1943	31.05.2003	Tamil Nadu
23.	D.N. Verma	01.06.1943	31.05.2003	Uttar Pradesh

R.S. YADAV, Asstt. Dir. General (SGP)

New Delhi-110001, the 25th June 2003

No. 1-37/2002-SPG—The President is pleased to grant proforma promotion to Maj. Genl. S.K. Sen an officer of Indian Postal Service Group 'A' of 1968 batch presently on deputation to APS in the grade of Member, Postal Services Board in the pay scale of Rs. 24050-650-26,000/- w.e.f. 24.6.2003 i.e. the date on which his junior has been promoted in terms of Clause II of FR 22.

V.K. TIWARY, Dir. (Staff)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th June 2003

No. ERB-I/2003/2/33—Shri P.C. Joshi, IRTS, presently working as Additional Member (T & C), Railway Board, in Grade Rs. 22,400-24,500/- is promoted to the Grade Rs. 24,050-26,000/-, in the post itself, with effect from the forenoon of 20.06.2003.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

No. ERB-I/2003/2/34—Shri Yudhisthir Singh, IRTS, presently working as Additional Member (Commercial), Railway Board, in Grade Rs. 22,400-24,500/- is promoted to the Grade Rs. 24,050-26,000/-, in the post itself, with effect from the forenoon of 19.06.2003.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

The 26th June 2003

No. ERB-I/2002/3/5—Shri Subhankar Dutta, Assistant of Railway Board Secretariat Service (Scale Rs. 5500-9000) has been promoted to officiate as Section Officer (Scale Rs. 6500-10500) of Railway Board Secretariat Service on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 17.06.2002.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

The 1st July 2003

No. ERB-I/2003/2/50—Shri R.K. Singh, IRSE, General Manager, Northern Railway is appointed as Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 30.06.2003.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

The 04th July 2003

No. ERB-I/2003/2/35—Shri S.B. Ghosh Dastidar, IRTS, working as Additional Member (Traffic), Railway Board, in Grade Rs. 22,400-24,500/- is promoted to the Grade Rs.

24,050–26,000/-, in the post itself, with effect from the afternoon of 18.06.2003.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

The 08th July 2003

No. ERB-I/2000/10/28—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.06.2003.

- (i) Shri S.N. Sharma Commanding Officer/RPF
- (ii) Shri S.L. Dutta Section Officer.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

The 09th July 2003

No. ERB-I/2003/2/13—Shri Shiv Nath Jha, Assistant of Railway Board Secretariat Service (Scale Rs. 5500–9000) has been promoted to officiate as Section Officer (Scale Rs. 6500–10500) of Railway Board Secretariat Service on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 19.06.2003.

R.R. JARUHAR, Secy., Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 07th July 2003

No. A-32014/1/96-E.I.—The President is pleased to appoint Shri S.K. Khurana, Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Road Transport & Highways as Section Officer on an ad-hoc basis w.e.f. 1.7.2003 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment does not confer on Shri S.K. Khurana any right for seniority or regular appointment in the grade of Section Officer (CSS).

A.P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110 003, the 1st July 2003

No. 3/1/2001-Admn.I—The President is pleased to give in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme to the following Scientists-F in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources as Scientists-G in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- with effect from the forenoon of the 1st July, 2003, until further orders :—

- (1) Dr. K.K. Singh;
- (2) Dr. B. Bandyopadhyay;
- (3) Shri K.P. Sukumaran; and
- (4) Shri Sudhir Mohan.

2. In terms of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources Group "A" Gazetted posts (Non-Ministerial Scientific and Technical Rules, 1988), the said promotion of above four scientists will be personal to them.

J. MAJUMDAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 04th July 2003

No. 17/2003 F.No. 25/1(3)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Yagyeshwar Sharan Varshney to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000–13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 21.05.2003 (FN).

2. Shri Yagyeshwar Sharan Varshney will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 18/2003 F.No. 25/1(14)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Jayant Kumar Gupta to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000–13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 19.05.2003 (FN).

2. Shri Jayant Kumar Gupta will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 26th May 2003

No. K-11011/13/2003-DDIA—The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri D.B. Gupta, IAS (RJ: 83), presently working as Commissioner (Housing), DDA, at the level of Director under the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, as Principal Commissioner, in the Delhi Development Authority (Joint Secretary level) under this Ministry, in the pay scale of Rs. 18400–22400/-, for the balance period of his Central deputation tenure i.e. upto 14.05.2005 or until further orders, whichever event takes place earlier, *vice* Shri A. Ramaswamy, IAS (KN: 74).

S.N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th June 2003

F.No. A-19011/1/2003-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri M.C. Arora, CSS as Deputy Secretary (in-situ) in the Ministry of Labour with effect from the forenoon of 8th May, 2003 until further orders.

M.C. MITTAL, Dy. Secy.